



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 18 जून, 2021 / 28 ज्येष्ठ, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

घ-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 14 जून, 2021

संख्या: राजस्व-घ/(एफ) 4-4/2017.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 3.17 एवम् 3.18 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए तहसील

श्री नैना देवी जी, बिलासपुर सदर व झण्डूता जिला बिलासपुर के अन्तर्गत 4 नये पटवार वृत्त टोबा संगवान (कौला बाला टोबा), खारसी, बड़ोल व रोहल का अनुबन्ध-‘क’ में दिये गए विवरण अनुसार एक पद पटवारी वेतनमान मु० 5910-20,200+1900 ग्रेड पे, मांग संख्या: 5, मुख्यशीर्ष-2029-00-103-04 (गैर-योजना) एवं एक पद अंशकालिक कार्यकर्ता (Part time worker) सहित सृजित/खोलने के सहर्ष आदेश देते हैं। नये पटवार वृत्तों के सृजन उपरान्त विद्यमान पटवार वृत्तों की वर्तमान स्थिति अनुबन्ध-‘ख’ अनुसार होगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
कमलेश कुमार पंत,
प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

अनुबन्ध-‘क’

नये सृजित पटवार वृत्त टोबा संगवान, खारसी, बड़ोल व रोहल की स्थिति का विवरण

प्रस्तावित पटवार वृत्त टोबा संगवान (कौला बाला टोबा) तहसील श्री नैना देवी जी (स्थित स्वारघाट) की स्थिति:-

क्रमांक	प्रस्तावित पटवार वृत्त	नाम गांव व हदबस्त नं०	कुल खसरा नम्बर	रकगा बीघों में	माल	खाता खतौनी
1.	टोबा संगवान	झीड़ियां / 350	379	2406-05	356.81	86 / 128
2.		नीला / 351	329	2429-15	258.01	87 / 96
3.		टोबा संगवान / 352	224	1469-17	116.60	56 / 73
4.		नन्द बैहल / 353	219	2392-09	136.66	74 / 83
5.		वासा / 354	189	2020-12	138.48	56 / 64
6.		खेड़ी बलोचड़ा / 355	274	987-05	158.35	107 / 274
7.		कोट खास / 357	120	706-18	71.70	29 / 37
8.		कांगुवाली / 358	119	1981-13	105.83	48 / 56
9.		धरोट / 348	606	6692-01	—	175 / 213
10.		लखनू / 349	205	928-02	156-66	44 / 57
11.		झीड़ा / 356	258	827-02	151-66	130 / 145
		जोड़..	2922	22841-19	2329.09	—

प्रस्तावित पटवार वृत्त खारसी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की स्थिति:-

क्रमांक	प्रस्तावित पटवार वृत्त	नाम गांव व हदबस्त नं०	कुल खसरा नम्बर	रकबा बीघों में	माल (रुपयों में)	खाता / खतौनी
1.	खारसी	खारसी कनैता / 92	269	980-19	97.89	53 / 60

2.		खारसी ब्राहमणा / 91	291	886-12	100.65	67 / 89
3.		लियूंगडी कनैता / 95	244	1446-13	115.84	45 / 52
4.		लियूंगडी ब्राहमणा / 90	132	576-10	67.64	24 / 27
5.		सोहरा वियून्स / 93	390	987-00	151.12	83 / 88
6.		साई ब्राहमणा / 97	509	1530-00	248.57	167 / 211
7.		भडेतार / 98	292	1124-02	186.28	95 / 119
8.		समलेहू / 94	66	417-12	37.81	13 / 16
9.		सूई / 58	484	1389-03	269.87	84 / 102
10.		भण्डोखर / 87	437	651-10	133.35	59 / 73
11.		दिगथली / 86	288	798-04	134.01	58 / 76
12.		घनसेड / 85	212	587-16	81.00	62 / 66
कुल जोड़..			3614	11376-01	1624-03	810 / 79

प्रस्तावित पटवार वृत्त बडोल, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की स्थिति:-

क्रमांक	प्रस्तावित पटवार वृत्त	नाम गांव व हदबस्त नं०	कुल खेवट खतौनी	कुल खसरा नम्बर व कित्ता	कुल रकबा बीघों में	मजरूआ	गैर मजरूआ	मल
1.	बडोल	धनत्थर / 170	39 / 47	175	546-19	184-01	362-18	80.92
2.		जमली / 174	41 / 52	200	398-11	154-01	244-01	64.00
3.		तन्यूर / 173	68 / 90	248	642-13	301-18	340-15	108.00
4.		बडोल / 172	47 / 58	172	766-12	215-11	551-01	87.41
5.		पोली / 156	117 / 135	428	1925-13	803-12	1122-01	229.00
6.		ज्वाह / 160	35 / 42	119	1401-19	353-08	1058-11	98.00
7.		थूराण / 171	47 / 80	237	896-13	220-08	676-05	108.00
कुल जोड़..			394 / 504	1579	6579-00	2223-08	4345-12	775.33

पटवार वृत्त रोहल, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की स्थिति:-

क्रमांक	प्रस्तावित पटवार वृत्त	नाम गांव व हदबस्त नं०	कुल खेवट खतौनी	कुल खसरा नम्बर व कित्ता	कुल रकबा बीघों में	मजरूआ	गैर मजरूआ	माल
1.	रोहल	लैहड़ / 134	26 / 40	144	1660-7	307-9	1352-18	64.97
2.		नाहरल / 135	68 / 77	268	1457-17	345-17	1112-0	100.55
3.		नन्ड / 132	19 / 22	68	1015-12	67-11	948-1	18.60

4.		ज्योरा / 130	72 / 89	246	584-5	287-3	297-2	162.75
5.		भदोल / 131	40 / 48	183	751-2	282-3	468-19	97.17
6.		नगराओं / 133	33 / 36	127	847-14	180-15	666-19	47.54
7.		दोकडू / 129	45 / 57	129	721-9	331-16	389-13	65.66
8.		रोहल / 128	137 / 165	466	2059-18	760-10	1299-8	199.55
9.		जंगल झौला / 131 / 1	1 / 2	8	2213-6	—	2213-6	—
कुल जोड़..			441 / 536	1639	11311-10	2563-4	8748-6	756.59

अनुबन्ध-‘ख’

नये पटवार वृत्त टोबा संगवान के सृजन उपरान्त पटवार वृत्त दबट मजारी (बस्सी) तहसील श्री नैना देवी जी की वर्तमान स्थिति का विवरण :-

क्रमांक	प्रस्तावित पटवार वृत्त	नाम गांव व हदबस्त न0	कुल खसरा नम्बर	रकबा बीघों में	माल	खाता खतौनी
1.	दबट मजारी (बस्सी)	दबट मजारी / 361	1630	10017-8	927.02	460 / 592
2.		बैहरड़ा / 359	486	3530-04	193.49	88 / 109
3.		डोला / 360	324	3991-17	194.14	88 / 109
4.		बस्सी / 381	424	3630-17	230.48	131 / 170
5.		गुरु का लौहार / 380	193	2110-02	117.31	41 / 77
6.		रत्री / 382	136	1771-08	85.06	23 / 27
7.		घट्टेवाल / 389	713	8620-05	—	60 / 127
8.		कुदीनी / 362	96	1752-15	50.31	19 / 21
जोड़..			4002	35424	1797.81	—

नये पटवार वृत्त खारसी के सृजन उपरान्त पटवार वृत्त भोली की वर्तमान स्थिति का विवरण :-

नाम पटवार वृत्त	क्रमांक	नाम गांव मय हदबस्त नम्बर	कुल खेवट	खतौनी	कुल खसरा नम्बर व कित्ता	कुल रकबा बीघों में	मजरूआ	गैर मजरूआ	माल
भोली	1.	बठोह / 53	26	28	171	1051-2	459-19	591-3	211.35
	2.	कमलोटा / 52	21	22	40	241-12	100-12	141-0	37.43
	3.	सुरहाड़ / 56	24	27	226	1256-8	761-15	494-13	189.20
	4.	पहलवाना / 50	55	60	247	1055-7	559-16	495-11	153.84
	5.	बुगाड़ / 54	27	27	130	724-17	327-0	397-17	59.90
	6.	भोली / 51	150	165	474	2324-6	1080-19	1243-07	407.95

7.	चिलग/57	28	28	63	502-16	295-19	206-17	72.02
जोड़..		331	357	1351	7156-08	3586-00	3570-08	1131.69

पटवार वृत्त खारसी के सृजन उपरान्त पटवार वृत्त रानी कोटला की वर्तमान स्थिति का विवरण :-

नाम पटवार वृत्त	क्रमांक	नाम गांव मय हदबस्त नम्बर	कुल खेवट	खतौनी	कुल खसरा नम्बर व कित्ता	कुल रकबा बीघों में	मजरूआ	गैर मजरूआ	माल
रानी कोटला	1.	रानी कोटला/96	99	120	389	1313-4	494-16	818-8	246.98
	2.	दैहड़/104	47	53	106	341-3	93-8	247-15	57.92
	3.	सायर/99	187	221	592	3402-7	1095-15	2306-12	993.39
	4.	करोट/105	181	225	620	4024-5	999-15	3024-10	728.14
	5.	डाबर/55	40	46	132	989-18	412-19	576-19	88.01
	6.	संगराणा/101	29	37	84	514-10	136-17	377-13	64.09
	7.	डोभा/106	56	65	137	645-02	323-05	321-17	286.88
	8.	ढाडस/49	41	49	90	607-16	227-06	380-10	79.86
	9.	ज्योरा/103	19	25	48	193-00	91-11	101-09	57.98
	10.	जंगल मुगराणी/99/1	56	59	132	1054.00	129-10	924-10	—
	11.	कोठीबताला/102	44	45	84	519-04	205-10	313-17	108.64
	12.	गोड़ी/100	52	62	145	706-14	343-17	362-17	186.64
जोड़..			851	1007	2559	14311-03	4554-06	9756-17	2898.26

पटवार वृत्त खारसी के सृजन उपरान्त हाल पटवार वृत्त सोलधा की वर्तमान स्थिति का विवरण :-

नाम पटवार वृत्त	क्रमांक	नाम गांव मय हदबस्त नम्बर	कुल खेवट	खतौनी	कुल खसरा नम्बर व कित्ता	कुल रकबा बीघों में	मजरूआ	गैर मजरूआ	माल
सोलधा	1.	गुरौड़/89	50	60	275	591-17	249-19	341-18	156.34
	2.	घमराड़ा/88	118	137	660	1950-07	728-01	1222-06	372.44
	3.	घेरटा/79	43	60	245	431-13	197-15	233-18	107.69
	4.	सोलधा/80	99	116	458	2174-9	495-11	1678-18	216.45
	5.	बागफुगलाटा/81	80	95	465	1030-00	332-08	697-12	191.29
	6.	भोजपुर/84	65	81	165	809-11	405-02	404-09	91.34
	7.	चम्यारा/85	64	100	295	676-15	288-06	388-09	83.36
जोड़..			519	649	2563	7664-12	2697-02	4967-10	1218.91

पटवार वृत्त खारसी के सृजन उपरान्त पटवार वृत्त घूणी पंजैल की वर्तमान स्थिति का विवरण :-

नाम पटवार वृत्त	क्रमांक	नाम गांव मय हदबस्त नम्बर	कुल खेवट	खतौनी	कुल खसरा नम्बर व कित्ता	कुल रकबा बीघों में	मजरूआ	गैर मजरूआ	माल
घूणी पंजैल	1.	शिल्हा / 14	86	106	396	2013-13	5521-11	1461-2	391.00
	2.	साई नोडवा / 15	50	92	349	1233-7	512-4	721-3	182.00
	3.	गोहटा / 16	21	25	110	485-5	281-6	203-19	130.00
	4.	सोहरी / 17	96	122	476	1055-3	381-16	673-7	168.00
	5.	बाग कलां / 18	92	110	367	836-19	415-10	421-9	191.00
	6.	पट्टा नोडवा / 19	16	17	185	239-1	139-3	99-18	68.00
	7.	पंजैल कलां / 20	46	61	300	1021-1	405-3	615-18	236.00
	8.	ठलैला / 21	21	25	97	582-18	153-7	429-11	81.00
	9.	बाडून् / 54	91	103	551	1672-18	881-18	791-00	200.00
	10.	नेरी / 60	12	15	55	495-7	111-7	184-00	46.00
	11.	बैहली / 61	40	58	153	955-9	317-12	637-17	129.00
	12.	चजोंटा / 62	40	47	218	933-19	222-5	711-14	156.00
	13.	पंजैल खुर्द / 63	49	56	272	1352-9	221-16	1130-13	209.00
	14.	जनैड / 64	50	61	402	1368-11	367-12	1000-19	120.00
	15.	गलोड / 65	59	78	255	802-18	290-2	512-16	139.00
	16.	सिकरोहा / 66	66	76	310	1094-12	346-12	748-00	102.00
जोड़..			825	1042	4496	16143-10	5600-4	10543-6	2548.00

पटवार वृत्त बड़ोल के सृजन उपरान्त हाल पटवार वृत्त समलेटा की वर्तमान स्थिति का विवरण :-

नाम पटवार वृत्त	क्र. सं.	नाम गांव मय हदबस्त नं०	कुल खेवट खतौनी	कुल खसरा नम्बर व कित्ता	कुल रकबा बीघों में	मजरूआ	गैर मजरूआ	मल
समलेटा	1.	कोहिना / 158	42 / 52	153	1532-17	215-10	1317-07	83.00
	2.	समलेटा / 166	73 / 87	323	968-04	349-11	618-13	171.00
	3.	चौकी / 177	1 / 1	59	179-07	—	179-07	—
	4.	कल्लर / 181	109 / 122	374	1700-18	354-00	1346-18	188.00
	5.	धराडसानी / 159	184 / 196	722	3259-03	733-17	2525-06	296.00
	6.	छत / 161	92 / 97	304	1214-10	308-03	906-07	117.00
	7.	भटेड / 165	75 / 81	291	807-05	272-19	534-06	109.00
	8.	कशनयूर / 162	1 / 1	144	548-06	—	548-06	—

9.	बडेला / 163	1 / 1	12	411-02	—	411-02	—
10.	डहमली / 164	11 / 18	104	444-14	66-06	378-08	44.00
11.	पट्टा / 168	20 / 21	48	149-08	58-06	91-02	27.00
12.	मरोहियां / 167	30 / 43	114	232-07	102-09	129-18	44.00
13.	बेहलग / 169	44 / 48	185	556-04	136-14	419-10	61.00
14.	लधेडा / 178	56 / 61	261	1346-07	133-03	1213-04	76.00
15.	सोपता / 176	12 / 14	34	91-12	21-14	69-18	12.00
16.	कोठी / 175	94 / 100	329	1182-19	431-02	751-17	167.00
17.	बैरीदडोलां / 179	142 / 165	432	1171-16	343-13	828-03	192.00
18.	बैहनाजट्टा / 180	361 / 405	1178	4706-00	1635-12	3070-08	701.00
जोड़..		1355 / 1513	5067	20502-19	5162-19	15340-00	2288.00

पटवार वृत्त बडोल के सृजन उपरान्त हाल पटवार वृत्त जांगला की वर्तमान स्थिति का विवरण :-

नाम पटवार वृत्त	क्र. सं.	नाम गांव मय हदवबत नं0	कुल खेवट खतौनी	कुल खसरा नम्बर व कित्ता	कुल रकबा बीघों में	मजरूआ	गैर मजरूआ	मल
जांगला	1.	घनयार / 189	52 / 69	164	529-18	145-19	383-19	105.41
	2.	सलासी / 182	115 / 126	420	1121-00	316-12	804-08	196.76
	3.	मेखवीं / 188	172 / 213	422	980-14	338-19	641-08	225.79
	4.	जज्जर / 192	157 / 183	427	924-14	394-17	529-17	272.03
	5.	जमोई / 187	58 / 78	140	206-04	167-19	38-05	95.72
	6.	सुन्दरू / 172	59 / 78	200	471-16	159-14	312-02	77.87
	7.	बरसड / 193	62 / 67	177	1167-04	328-19	838-05	178.13
	8.	खुडाई / 186	13 / 15	58	96-17	43-03	53-14	27.00
	9.	खिरसी / 185	19 / 22	49	289-15	139-13	150-02	60.34
	10.	जांगला / 184	270 / 296	945	3320-08	1107-05	2213-03	562.87
	11.	जंगलसेरूसलासी / 182(अ)	1 / 1	3	1916-19	—	1916-19	—
जोड़..			978 / 1139	3005	11025-09	3143-00	7882-09	1801.92

पटवार वृत्त बडोल के सृजन उपरान्त हाल पटवार वृत्त नखलेहड़ा की वर्तमान स्थिति का विवरण :-

नाम पटवार वृत्त	क्र. सं.	नाम गांव मय हदवस्त नं0	कुल खेवट खतौनी	कुल खसरा नम्बर व कित्ता	कुल रकबा बीघों में	मजरूआ	गैर मजरूआ	मल
नखलेहड़ा	1.	खलसाये / 141	78 / 103	409	1916-07	478-08	1437-19	22.00
	2.	पसोल / 143	36 / 47	114	834-10	145-12	688-18	69.00

	3.	मुसाहण / 142	59 / 81	152	2024-17	438-04	1586-13	165.00
	4.	लुहारड़ / 144	45 / 49	127	2748-12	235-04	2513-08	72.00
	5.	डिबरू / 145	2 / 2	31	597-10	—	597-10	—
	6.	चोहल / 146	2 / 2	13	230-11	—	230-11	—
	7.	मातला / 147	8 / 10	97	2845-19	32-13	2813-06	14.00
	8.	समलेटू / 148	20 / 21	265	877-12	90-15	786-17	12.00
	9.	दाडीभाडी / 149	68 / 86	183	1445-00	312-09	1132-11	95.00
	10.	काहरवी / 150	33 / 38	106	856-14	161-09	695-05	50.00
	11.	कुलाहण / 151	11 / 16	49	290-04	136-18	153-06	45.00
	12.	घराण / 152	80 / 93	239	801-13	324-13	477-00	155.00
	13.	नखलेहडा / 153	42 / 52	86	527-11	249-09	278-02	73.00
	14.	बसन्दवादी / 154	22 / 26	75	234-01	100-19	133-02	43.00
	15.	टिहरी / 155	31 / 42	162	481-12	198-08	283-04	74.00
	16.	रछेडा / 157	126 / 145	304	2279-13	824-16	1454-17	183.00
	17.	जंगलघनीरी	1 / 4	38	3696-10	—	3696-10	—
जोड़..			637 / 814	2445	22688-16	3729-17	18958-19	2272.00

पटवार वृत्त रोहल के सृजन उपरान्त हाल पटवार वृत्त डाहड की वर्तमान स्थिति का विवरण :-

नाम पटवार वृत्त	क्र. सं.	नाम गांव मय हदबस्त नं०	कुल खेवट खतौनी	कुल खसरा नम्बर व कित्ता	कुल रकबा बीघों में	मजरूआ	गैर मजरूआ	मल
डाहड	1.	डफेर / 125	45 / 54	133	811-5	259-16	551-9	114.15
	2.	डाहड / 126	156 / 188	518	2710-12	1047-9	1663-3	433.35
	3.	देहलवी / 127	38 / 47	136	689-13	222-2	467-11	86.87
	4.	टिकरी / 137	111 / 140	426	2375-11	425-00	1950-11	201.00
	5.	डैहण / 136	38 / 55	215	1077-14	155-18	921-11	98.09
	6.	कुटेडा / 138	12 / 18	79	662-18	13-16	649-2	8.07
	7.	संघ / 140	36 / 45	165	1222-10	227-16	994-14	125.33
	8.	गाहरल / 139	2 / 2	21	642-9	—	642-9	—
जोड़..			435 / 549	1693	10192-12	2351-17	7840-15	1066-86

पटवार वृत्त रोहल के सृजन उपरान्त हाल पटवार वृत्त झण्डूता की स्थिति:-

नाम पटवार वृत्त	क्र. सं.	नाम गांव मय हदबस्त नं०	कुल खेवट खतौनी	कुल खसरा नम्बर व कित्ता	कुल रकबा बीघों में	मजरूआ	गैर मजरूआ	मल
झण्डूता	1.	झण्डूता अब्बल / 119 / 1	267 / 587	2590	2689-5	1114-5	1584-0	—

	2.	झण्डूता दोयम / 119 / 2	168 / 348	1890	2182-8	836-3	1346-5	—
	3.	झण्डूता सोयम / 119 / 3	177 / 492	1935	1293-2	671-3	621-19	—
	4.	बलघाड / 114	169 / 197	638	2821-12	1059.10	4762-2	378.91
	5.	जंगल खुजराहल / 114 / 3	1 / 2	3	101-14	—	101-14	—
	6.	जंगल मटेरी / 114 / 2	1 / 1	1	98-10	—	98-10	—
	7.	जंगल राहण / 114 / 1	1 / 2	5	2028-19	—	2028-19	—
जोड़..			784 / 1629	7062	14224-10	3681-1	10543-9	378.91

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या 1 / 2021-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 16 जून, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4 / 2021-वॉल-1.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 01 / 2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30-06-2017 जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन0 (एफ)10-14 / 2017-लूज, दिनांक 30-06-2017 को प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,—

- (क) अनुसूची I — 2.5% में, क्रम संख्या 259क के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9503" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (ख) अनुसूची I के पश्चात्, सूची 1 में, क्रम संख्या 23.0 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा—

"(231). डायथाइलकार्बामाज़िन".

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
(जगदीश चन्द्र शर्मा),
अति० मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I, dated 16th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 1/2021-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 16th June, 2021.

No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 and sub-section (5) of Section 15 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 1/2017-State Tax (Rate) dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification,—

- (a) in Schedule I - 2.5%, against S. No. 259A, for the entry in column (2), the entry “9503” shall be substituted;
- (b) after Schedule I, in the List 1, after serial number 230 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely—
“(231). Diethylcarbamazine”.

2. This notification shall come into force on the 2nd day of June, 2021.

By order,
Sd/-
(Jagdish Chander Sharma),
Addl. Chief Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या: 2/2021—राज्य कर (दर)

शिमला-2, 16 जून, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4/2021—वॉल—1.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर) दिनांक 30-06-2017 जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन0 (एफ)10-14/2017—लूज, दिनांक 30-06-2017 को प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, —

(क) क्रम संख्या 3, कॉलम (5) में, शर्त में, मद (i), (i), (i), (i) और (i) के समक्ष, चौथे परंतुक में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जायेगा, यथा:—

“(iii) भू-स्वामी-प्रमोटर उस टैक्स के क्रेडिट का उपयोग टैक्स भुगतान के लिए करने का पात्र होगा, जो डेवलपर-प्रमोटर द्वारा उस अपार्टमेंट में निर्माण की आपूर्ति पर लगाया गया हो, जिसकी सप्लाई भू-स्वामी-प्रमोटर द्वारा की जानी है।”;

(ख) क्रम संख्या 25 में,—

(i) कॉलम (3) में, मद (i) के पश्चात् और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, कॉलम (3), (4) और (5) में निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)	(4)	(5)
“(i) जहाज या अन्य जलयान उनके इंजन और अन्य घटक या पार्ट्स से संबंधित रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉलिंग की सेवाएं।	2.5	.”

(ii) कॉलम (3) में, मद (ii) में, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर “और (i)” के स्थान पर कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द”, (i) और (i)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
(जगदीश चन्द्र शर्मा),
अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I, dated 16th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 2/2021-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 16th June, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of Section 9, sub-section (1) of Section 11, sub-section (5) of Section 15, sub-section (1) of Section 16 and Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No.

11/2017-State Tax (Rate) dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table,—

- (a) in serial number 3, against items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) in column (3), in the conditions in column (5), in the fourth proviso, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely—

“(iii) the landowner-promoter shall be eligible to utilize the credit of tax charged to him by the developer-promoter for payment of tax on apartments supplied by the landowner-promoter in such project.” ;

- (b) in serial number 25,—

- (i) after item (ia) in column (3) and the entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely –

(3)	(4)	(5)
“(ib) Maintenance, repair or overhaul services in respect of ships and other vessels, their engines and other components or parts.	2.5	-”

- (ii) in item (ii) in column (3), for the word, brackets, figures and letter “ and (ia)”, the brackets, figures, letter and word “,(ia) and (ib)” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 2nd day of June, 2021.

By order,
Sd/-
(Jagdish Chander Sharma),
Addl. Chief Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या: 3 / 2021—राज्य कर (दर)

शिमला—2, 16 जून, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4 / 2021—वॉल—1.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 06 / 2019—राज्य कर (दर) दिनांक 06—05—2019 जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन (एफ)10—09 / 2019, दिनांक 08—05—2019 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,—

- (क) शब्द “जिनके मामले में राज्य कर का भुगतान करने की देयता है” के स्थान पर शब्द “जो कि इन पर राज्य कर का भुगतान करेंगे” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ख) शब्द “सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जहां अपेक्षित हो, आरईपी के लिए पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तिथि या उनके प्रथम कब्जे पर, जो भी पहले हो को उत्पन्न होगा” के स्थान पर शब्द “उस कर अवधि में, जो कि ऐसी कर अवधि के बाद न हो, जिसमें, जहां भी आवश्यक हो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा परियोजना से संबंधित पूर्णता प्रमाण-पत्र को जारी किए जाने की तारीख या इसके पहले कब्जे की तारीख, जो भी पहले हो, पड़ती हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
(जगदीश चन्द्र शर्मा),
अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I, dated 16th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 3/2021-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 16th June, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 06/2019-State Tax (Rate) dated the 6th May, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-9/2019, dated the 8th May, 2019—

In the said notification, in the first paragraph,—

- (a) for the words “in whose case the liability to”, the words “, who shall” shall be substituted;
- (b) for the words “shall arise on the date of issuance of completion certificate for the project, where required, by the competent authority or on its first occupation, whichever is earlier”, the words “in a tax period not later than the tax period in which the date of issuance of the completion certificate for the project, where required, by the competent authority, or the date of its first occupation, whichever is earlier, falls” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 2nd day of June, 2021.

By order,
Sd/-
(Jagdish Chander Sharma),
Addl. Chief Secretary (E&T).

ब अदालत श्री बुद्धि लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 20 / 2020

तारीख दायर : 10-03-2021

श्री देवराज पुत्र स्व0 श्री फिन्दू राम, निवासी गांव नानण, डाकघर ज्यूरी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

सचिव, ग्राम पंचायत बौण्डा

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त बराए नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौण्डा के परिवार रजिस्टर व जन्म रजिस्टर में दर्ज किए जाने बारे।

श्री देवराज पुत्र स्व0 श्री फिन्दू राम, निवासी गांव नानण, डाकघर ज्यूरी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरखास्त पेश की है कि देवराज के पुत्र मोहित कुमार व अमन कुमार का नाम एवं जन्म तिथि नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत बौण्डा के परिवार रजिस्टर व जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं है। अतः आवेदक के पुत्र मोहित कुमार व अमन कुमार का नाम एवं जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौण्डा के परिवार रजिस्टर व जन्म रजिस्टर में दर्ज किए जाने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मोहित कुमार व अमन कुमार का नाम एवं जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौण्डा के परिवार रजिस्टर व जन्म रजिस्टर में दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकते हैं अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत बौण्डा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28-04-2021 को जारी हुआ।

मोहर।

बुद्धि लाल नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बुद्धि लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 22 / 2021

तारीख दायर : 23-01-2021

श्री पदम चन्द पुत्र श्री बेसरू, निवासी गांव कोछडी, डाकघर ज्यूरी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

सचिव, ग्राम पंचायत त्यावल/ज्यूरी

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त बराए छटू राम व छटू राम के परिवार सदस्यों का नाम पदम चन्द के परिवार रजिस्टर में दर्ज किए जाने बारे।

श्री पदम चन्द पुत्र श्री बेसरू, निवासी गांव कोछडी, डाकघर ज्यूरी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरखास्त पेश की है कि वादी पदम चन्द पुत्र श्री बेसरू, छटू राम व छटू राम के परिवार सदस्यों का नाम अपने परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है क्योंकि पदम चन्द की कोई सन्तान नहीं है और छटू राम के पुत्र शेर सिंह को वादी पदम चन्द ने अपना बेटा माना है। अतः वादी पदम चन्द ने निवेदन किया कि छटू राम व छटू राम के समस्त परिवार सदस्यों का नाम वादी के परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत त्यावल/ज्यूरी में दर्ज किया जाए। अतः वादी पदम चन्द के परिवार रजिस्टर में छटू राम के समस्त परिवार सदस्यों का नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त बारे कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकते हैं अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत त्यावल/ज्यूरी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28-04-2021 को जारी हुआ।

मोहर।

बुद्धि लाल नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बुद्धि लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकदमा नं0 : 21/2021

तारीख दायर : 31-03-2021

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री रतन दास, निवासी गांव रेवशल, डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन,
जिला शिमला (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

सचिव, ग्राम पंचायत सराहन

प्रतिवादी।

विषय.— दरखास्त बराए नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सराहन के परिवार नकल व जन्म रजिस्टर में दर्ज किए जाने बारे।

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री रतन दास, निवासी गांव रेवशल, डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरखास्त पेश की है कि प्रकाश चन्द के पुत्र अभिनव बिष्ट का नाम एवं जन्म तिथि ग्राम पंचायत सराहन के परिवार रजिस्टर व जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं है। अतः आवेदक के पुत्र अभिनव बिष्ट का नाम एवं जन्म तिथि ग्राम पंचायत सराहन के परिवार रजिस्टर व जन्म रजिस्टर में दर्ज किए जाने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अभिनव बिष्ट पुत्र प्रकाश चन्द का नाम एवं जन्म तिथि ग्राम पंचायत सराहन के परिवार रजिस्टर व जन्म रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकते हैं अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत सराहन को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28-04-2021 को जारी हुआ।

मोहर।

बुद्धि लाल नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बुद्धि लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 15/2020

तारीख दायर : 25-07-2020

श्री मीर हमजा पुत्र श्री अली सैन, निवासी गांव जाडगी, डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

सचिव, ग्राम पंचायत सराहन

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त बराए वादी व वादी के परिवार सदस्यों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सराहन के अभिलेख में दर्ज किए जाने बारे।

श्री मीर हमजा पुत्र श्री अली सैन, निवासी गांव जाडगी, डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरखास्त पेश की है कि वादी व वादी की पत्नी जीमला, पुत्र मुस्ताक की जन्म तिथि व वादी के पुत्र आरीफ व पुत्री मदाना का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सराहन के अभिलेख में दर्ज नहीं है। अतः वादी व वादी के परिवार सदस्यों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सराहन के अभिलेख में दर्ज किए जाने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी व वादी के परिवार सदस्यों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सराहन के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकते हैं अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत सराहन को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28-04-2021 को जारी हुआ।

मोहर।

बुद्धि लाल नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री बुद्धि लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन,
जिला शिमला (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 95/2021

तारीख दायर : 12-02-2021

श्रीमती कर्म देवी पत्नी स्व0 श्री नरवीर सिंह, निवासी गांव घराट, डाकघर बौण्डा, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल जायज वारसान श्रीमती डोलमा विधवा श्री पदमजीत पुत्र यंगजिन छेरिंग, निवासी गांव घराट, अराजी खाता/खतौनी नं0 215/638, खसरा नम्बर 1146, रकबा तादादी 0-08-99 हैक्टेयर, का 1/4 भाग व खाता/खतौनी नं0 72 मिन/253 व 254, खसरा नम्बर 1150, 1154, कित्ता 2, रकबा तादादी 0-14-21 हैक्टेयर, का 1/4 भाग चक रांवी उप-तहसील सराहन, जिला शिमला हि0प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त श्रीमती कर्म देवी पत्नी स्व0 श्री नरवीर सिंह, निवासी गांव घराट, डाकघर बौण्डा, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि श्रीमती कर्म देवी की सास श्रीमती डोलमा पत्नी स्व0 श्री पदमजीत पिछले लगभग 30 वर्षों से लापता है। तब से लेकर वह आज दिन तक वापिस नहीं आई उसके पश्चात् प्रार्थिया ने बहुत तलाश की परन्तु आज दिन तक कोई पता न चला है, न ही उसकी कोई चिट्ठी-पत्र आया है। इलाके में उनको किसी भी आदमी ने नहीं देखा है। इस सम्बन्ध में पुलिस चौकी सराहन, थाना झाकड़ी, जिला शिमला में दिनांक 08-10-2018 को जानकारी दी गई कि श्रीमती डोलमा 30 वर्षों से लापता है।

प्रार्थिया की सास श्रीमती डोलमा अराजी खाता/खतौनी नं0 215/638, खसरा नम्बर 1146, रकबा तादादी 0-08-99 हैक्टेयर, का 1/4 भाग व खाता/खतौनी नं0 72 मिन/253 व 254, खसरा नम्बर 1150, 1154, कित्ता 2, रकबा तादादी 0-14-21 हैक्टेयर, का 1/4 भाग चक रांवी के खाना मालिक में मालिक दर्ज कागजात माल है। प्रार्थिया की सास को लापता हुए लगभग 30 वर्ष का समय हो गया है। इसलिए श्रीमती डोलमा विधवा स्व0 श्री पदमजीत पुत्र यंगजिन छेरिंग के जायज वारसान (कर्म देवी पत्नी स्व0 श्री नरवीर सिंह पुत्र श्री पदमजीत, जीवन सिंह पुत्र श्री पदमजीत, सुन्दर दासी पुत्री पदमजीत) के हक में मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल तस्दीक करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि श्रीमती डोलमा देवी पत्नी स्व0 श्री पदमजीत जीवित है तो अदालत हजा में पेश हों तथा उपस्थित न होने की सूरत में यह माना जाएगा कि श्रीमती डोलमा देवी की मृत्यु हो चुकी है। यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती डोलमा का मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल जायज वारसान के हक में तस्दीक करने बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकते हैं अन्यथा बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल जायज वारसान के हक में तस्दीक करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-05-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

बुद्धि लाल नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

